



**थाना सुमेरपुर**

**दिनांक-03.09.2021**

## 2 दिन पूर्व एक 13 वर्षीय लड़के की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया

दिनांक 01.09.2021 को कस्बा सुमेरपुर में बांकी रोड काशीराम कालोनी के पास जंगल में एक क्षत-विक्षत मानव अवशेष प्राप्त होने सूचना मिली जिसकी शिनाख्त श्री कमरूद्धीन पुत्र महायादीन निवासी बसन्त नगर कस्बा व थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर ने अपने पुत्र सुब्बी उम्र करीब 12 वर्ष के रूप में हुई थी। मौके पर थाना सुमेरपुर पुलिस व फील्ड यूनिट की टीम द्वारा जाकर जांची की गई एवं पंचायतनामा की कार्यवाही की गई तथा मृतक सुब्बी उपरोक्त के पिता श्री कमरूद्धीन की लिखित सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 280/2021 धारा 302/201 भा0द0सं0 बनाम संदेही आरोपी 1. विपिन पाल पुत्र जगभान पाल निवासी बसन्त नगर कस्बा व थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर 2. कदोरी नट पुत्र ठाकुर दास निवासी इटैल थाना राठ जनपद हमीरपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना के अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुमेरपुर व एसओजी हमीरपुर की टीम का गठन किया गया।

जिसके फलस्वरूप प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र प्रताप सिंह व एसओजी प्रभारी मय हमराही पुलिस बल के सादे वस्त्रों में कस्बा सुमेरपुर में मुकदमा उपरोक्त के जानकारी व पूछताछ कर रहे थे कि मुखबिर खास द्वारा जरिये दूरभाष सूचना दी कि काशीराम कालोनी का रहने वाला रवि(काल्पनिक नाम) मृतक सुब्बी का करीबी दोस्त है अगर उससे पूछताछ की जाये तो लाभप्रद जानकारी मिल सकती है। इस सूचना पर मुखबिर की बात पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक व एसओजी प्रभारी मय फोर्स सादे वस्त्रों में काशीराम कालोनी बांकी रोड आये तथा रवि(काल्पनिक नाम) उम्र करीब 14 वर्ष को उसके पिता के साथ बुलाकर समझा बुझाकर घटना के सम्बन्ध में गहनता से पूछताछ की गई तो जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि मेरी सुब्बी से करीब 4-5 महीने पहले की दोस्ती है। जन्माष्टमी के दिन से करीब 4-5 दिन पहले मुझे घर वालो ने सामान लेने के लिये 60 रु0 दिये थे जो मैंने सुब्बी व अन्य दोस्तों के साथ जुआ खेलते हुये हार गया घरवालो के डर के कारण मैंने सुब्बी से 60 रु0 ऊधार लिये क्योंकि सुब्बी जुआ में रुपये जीता था मैंने वह रुपये लेकर सामान खरीद कर घर में दे दिया। जन्माष्टमी के दिन दोपहर को काशीराम कालोनी के बाहर जहाँ पर मैं खेल रहा था वहाँ आकर सुब्बी मुझसे ऊधार के 60 रुपये मांगने लगा तो मैंने उससे कहा कि व्यवस्था करके 2-3 दिन में दे दूंगा परन्तु सुब्बी बोला मुझे तुरन्त रुपया चाहिये और मुझसे गाली गलौज करने लगा मैंने उससे कहा कि यहाँ मत झगड़ो और समझाते हुये जंगल की तरफ ले गया वहाँ पर

सुब्बी मुझसे लड़ने लगा और लिपट गया तब मैंने उसके पैर मारकर गिरा दिया तो सुब्बी ने पास पड़े गुम्मा को उठाकर मुझे मारना चाहा कि मैंने उसी गुम्मा को छीन कर उसके सिर में मार दिया जिससे वह गिर गया और उसके खून निकलने लगा उसके बाद मैंने उसको घसीटकर बगल में ही एक झाड़ी में छिपा दिया उस समय उसकी सांसे चल रही थी। मैंने पथर को नाले में फेंक दिया और उसी नाले के पानी से अपने कपड़ों में लगा खून धो दिया और घर चला गया। घटना का सफल अनावरण करते हुये बाल अपचारी को नियमानुसार हिरासत में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

### **घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.प्र0नि0 बीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर
- 2.श्री विनोद कुमार राय प्रभारी एसओजी हमीरपुर
- 3.उ0नि0 रामबाबू यादव थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर
- 4.हे0का0 श्यामबाबू तिवारी थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर
- 5.हे0का0 रजत कुमार सिंह एसओजी हमीरपुर
- 6.का0 कमलकान्त एसओजी हमीरपुर
- 7.का0 राजदीप सिंह एसओजी हमीरपुर
- 8.का0 हनुमन्त यादव थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर
- 9.का0 सुरेन्द्र कुमार मिश्रा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर
- 10.का0 विकास मिश्रा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर

